

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प गडरारोड़

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 12/2017

<u>अपीलांट</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोंडेंट</u>
सुमार वल्द नूरा जाति मुसलमान निवासी रेहलिया तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
आदेश दिनांक 5.12.2016 बमुकदमा संख्या 81/2016 द्वारा  
तहसीलदार गडरारोड़।

उपस्थित— 1. अपीलांट उपस्थित।  
2. रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13.06.2018



1. अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रकरण संख्या 81/2016 में पारित आदेश दिनांक 5.12.2016 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का तामलोर ने तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट सुमार ने संवत् 2073 में मौजा मखन का पार के खसरा नंबर 420/307 रकबा 155 बीघा किस्म बा.चा. में से 10 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा व ग्वार की काश्त की जाकर अतिक्रमण किया है। इस पर तहसीलदार गडरारोड़ ने प्रकरण संख्या 81/2016 दर्ज कर बाद, जांच एवं सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2016 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये, 10/-

अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

रूपये जुर्माना आरोपित किया एवं एक माह की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट केम्प गडरारोड़ में पेश हुई, जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट उपस्थित हुए।
4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांत द्वारा कथन किया कि वह भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उसको समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं उसकी अनुपस्थिति में एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। अपीलांत पश्चातवृत्ति अतिक्रमी नहीं है। अपीलांत द्वारा विवादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है, जुर्माना की राशि अदा कर दी है। भविष्य में इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु बंध पत्र पेश कर सिविल कारावास की सजा को माफ करने का निवेदन किया। इसके जवाब में रेस्पोंडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा जाहिर किया कि अपीलांत ने संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया था एवं उसे बेदखल किया गया था। अपीलांत ने इस भूमि पर संवत् 2073 में पुनः अतिक्रमण किया है। अपीलांत पश्चातवृत्ति अतिक्रमी है। अपीलांत की अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह सही है। लिहाजा अपीलांत की अपील खारिज की जाए।
5. हमने अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट के कथनों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का तामलोर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांत द्वारा मौजा मखन का पार के खसरा नंबर 420/307 रकबा 155 बीघा किस्म बा.चा. में से 10 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा व ग्वार की काश्त की जाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर, अपीलांत को सुनवाई हेतु पेशी तारीख 7.11.2016 को नोटिस जारी किया गया, जो अपीलांत स्वयं से तामील होकर प्राप्त होने पर अपीलांत



अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

पेशी तारीख 7.11.2016 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान अनुसार अपीलांत द्वारा इस भूमि पर संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया गया था जिस पर मुकदमा संख्या 727/2015 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 29.10.2015 द्वारा अतिक्रमी घोषित कर प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये गये थे। इससे यह प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांत पश्चातवृत्ति अतिक्रमी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा दोबारा अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह सही एवं न्यायोचित है। इस स्टेज पर अपीलांत ने निवेदन किया कि अपीलांत भूमिहीन एवं गरीब काश्तकार है। अपीलांत ने जुर्माना की राशि अदा कर दी है व भूमि से कब्जा हटा दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जाए। इस संबंध में तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी ने वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है और अतिक्रमित भूमि वर्तमान में खाली है एवं सरकारी कब्जे में है। इन तथ्यों पर हमने मनन किया। अपीलांत ने भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है और अतिक्रमित भूमि खाली एवं सरकारी कब्जे में है। लिहाजा अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है।



(ओ.पी.बिश्नोई)

अपर कलक्टर बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प गडरारोड़ में दिनांक 13.06.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर  
अपर कलक्टर बाड़मेर  
(ए.डी.एम.)